

कार्यालय जोधपुर नगर निगम-दक्षिण

क्रमांक:- न.नि.जो. / दक्षिण / द्वितीय / 2022-23 / 1207

दिनांक:- 02/01/2023

अल्पकालीन निविदा सूचना

(यूनिक बिड संख्या ...DLB2223WSOB24406.....)

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायतशाषी/निगमों/बोर्डों/राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत ए.0ए व ए. श्रेणी में पंजीकृत तथा नगर निगम जोधपुर में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत नियमानुसार योग्य संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 02.01.2023 को 12:30 बजे तक बेची जाकर, दिनांक 02.01.2023 को दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त कर 3:00 बजे उपस्थित संवेदको के समक्ष खोली जायेगी। अन्य विवरण एवं शर्तें निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय में देखे जा सकते हैं। www.sppp.raj.nic.in एवं जोधपुर नगर निगम की वेबसाई www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु. लागत लाखों में	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01	Interlocking tile work at various places in ward no. 1 to 40 of NNJS (ARC)	4.99	9980/-	500/-	12 Month
02	Interlocking tile work at various places in ward no. 41 to 80 of NNJS (ARC)	4.99	9980/-	500/-	12 Month
03	Enamel paint and cement paint work on road divider blocks at various places in ward no. 1 to 40 of NNJS (ARC)	4.99	9980/-	500/-	12 Month
04	Enamel paint and cement paint work on road divider blocks at various places in ward no. 41 to 80 of NNJS (ARC)	4.99	9980/-	500/-	12 Month

नोट :- (1) दरे चार माह तक मान्य होगी। (2) कार्य शुरू करने से पूर्व व कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्य स्थल की फोटो/ विडियोग्राफी सी0डी0 आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। (3) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। (4) दोष निवारण अवधि नियमानुसार होगी। (5) धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता निविदा खोलने की तारीख से निविदा की वैधता अवधि तक होनी अनिवार्य है अन्यथा निविदा कॉपी निरस्त की जा सकती है। (6) आयुक्त नगर निगम जोधपुर के आदेश क्रमांक 9836 दिनांक 7.2.2020 एवं 9975 दिनांक 14.7.2020 अनुसार पंजीयन रिव्यू आदेश के तहत निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जायेगी। (7) श्रीमान निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 144612-825 दिनांक 22.11.021 की पालना में वित्त विभाग की अधिसूचना आर.टी.पी.पी. नियम 2013 में Additional Performance Security के लिये नियम 75-ए के अनुसार Additional Performance Security जमा करवानी होगी।


आयुक्त

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

क्रमांक:- न.नि.जो. / दक्षिण / द्वितीय / 2022-23 / 1208 + 014

दिनांक:- 02/01/2023

प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।
- निदेशक/अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशायी अभियन्ता, सा.नि.वि./जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम जोधपुर।
- सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर नगर निगम।
- समाचार पत्र दैनिक प्रतिनिधि को भेजकर लेख है कि उपरोक्त अल्पकालीन निविदा का नियमानुसार क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन करावें।
- श्री रामेश्वर गहलोत, प्रोग्रामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि एवं निविदा सूचना (1) urban.rajasthan.gov.in/mcjs (2) sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
- सूचना पट्ट जोधपुर नगर निगम उत्तर/दक्षिण।


आयुक्त

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

NAGAR NIGAM JODHPUR SOUTH

GSCHEDULE

No. date

Sr No.

Date of Sale :-

Earnest Money : Rs.

Date of Receipt :-

CR No. Dated.

By issued to M/s

Name of Work- Interlocking tile work at various Places in Ward No. 41 to 80 of NNJS (A.R.C.)

			RUIDP SOR 2022		
S.No.	Item	Qty.	Unit	Rate	Amount
	Dismantling of flexible pavements and disposal of dismantled materials up to a lead of 50 metres as directed by Engineer.Bituminous courses	1.00	Cum	411.00	411.00
	Granular courses	1.00	cum	286.50	286.50
	Earth work in excavation for roadway, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirement of line, grades and cross sections, including disposal of surplus material with all lift and lead upto 1000 metre as per MoRT&H specification clause 301. In all type of soil	1.00	Cum	214.50	214.50
	Carriage of Materials by mechanical transport including loading,unloading and stacking : 5 km	3.00	cum	245.95	737.85
	Providing & laying interlocking terrzo cloured block plastic moulded.80 mm thickness having min. crushing strangth 40 N/mm2 laid over 40 mm thick river sand bed complete as per drawing and approved by Engineer In Charge , Complete with all respect .	1	Sqm.	802.00	802.00
	Providing and laying lean cement concrete 1:4:8 in Sub- base over a prepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1, cement content not to be less than 150 kg/ cum, optimum moisture content to be determined during trial length construction, concrete strength not to be less than 10 Mpa at 7 days, mixed in concrete mixer, laid manually, compacted with surface vibrator, finishing and curing complete as per clause 601, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.	1	cum	2775.00	2775.00

Handwritten signature

Providing and laying un-reinforced, dowel jointed, plain cement concrete mix With Concrete Mixer & vibrator pavement over a prepared sub base with 43 grade cement , coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, maximum size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, mixed as per approved mix design, laid, spread, compacted and finished in a continuous operation including provision of contraction, expansion, construction and longitudinal joints, joint filler, separation membrane, sealant primer, joint sealant, debonding strip, admixtures (if required) as approved, curing compound, finishing to lines and grades complete as per drawing and as per clause 602, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.PCC M-20	1	cum	5550.00	5550.00
Providing and fixing precast cement concrete M-20 grade (Using mechanical Concrete Mixer) kerb stone top and bottom width 115 and 165 mm respectively, 250 mm high on 150 mm thick PCC M-10 grade foundation as per design, including fixing at site as per clause 408 of MoRT&H Specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion	1	RM	312.50	312.50
			Total	11089.35

Work amount upto Rs. 5.00 lacs

4.99

1s and Condition :-

- 1 प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
- 2 स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
- 3 नगरणी में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।
- 4 स्थल पर कार्य सम्बंधित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।
- 5 ण त्रुटी की अवस्था में सम्बन्धित रेट मान्य होगी।
- 6 र्य करने से पूर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कराने होंगे।
- 7 ष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी।
- 8 रें 4 माह तक मान्य रहेगी
- 9 शर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- 10 निष्पादन सुरक्षा राशि 10 प्रतिशत मय अनुबन्ध के जमा कराना होगा।

**EXECUTIVE ENGINEER
NAGAR NIGAM, JODHPUR.**

We hereby agree to do the above work @ _____ Above/below the "G" Schedule.

(Signature of Contractor)

NAGAR NIGAM JODHPUR SOUTH

GSCCHEDULE

NIT No. date
 Last Date of Sale :-
 Date of Receipt :-
 Copy issued to M/s

Sr No.
 Earnest Money : Rs.
 CR No. Dated.

Name of Work- Interlocking tile work at various Places in Ward No. 1 to 40 of NNJS (A.R.C)

			RUIDP SOR 2022		
S.No.	Item	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Dismantling of flexible pavements and disposal of dismantled materials up to a lead of 50 metres as directed by Engineer.Bituminous courses	1.00	Cum	411.00	411.00
1.1	Granular courses	1.00	cum	286.50	286.50
2	Earth work in excavation for roadway, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirement of line, grades and cross sections, including disposal of surplus material with all lift and lead upto 1000 metre as per MoRT&H specification clause 301. In all type of soil	1.00	Cum	214.50	214.50
3	Carriage of Materials by mechanical transport including loading,unloading and stacking : 5 km	3.00	cum	245.95	737.85
4	Providing & laying interlocking terrzo cloured block plastic moulded.80 mm thickness having min. crushing strangth 40 N/mm2 laid over 40 mm thick river sand bed complete as per drawing and approved by Engineer In Charge , Complete with all respect .	1	Sqm.	802.00	802.00
5	Providing and laying lean cement concrete 1:4:8 in Sub- base over a prepared sub-grade with coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, the size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, aggregate cement ratio not to exceed 15:1, aggregate gradation after blending to be as per table 600-1, cement content not to be less than 150 kg/ cum, optimum moisture content to be determined during trial length construction, concrete strength not to be less than 10 Mpa at 7 days, mixed in concrete mixer, laid manually, compacted with surface vibrator, finishing and curing complete as per clause 601, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.	1	cum	2775.00	2775.00


bu

6	Providing and laying un-reinforced, dowel jointed, plain cement concrete mix With Concrete Mixer & vibrator pavement over a prepared sub base with 43 grade cement , coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, maximum size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, mixed as per approved mix design, laid, spread, compacted and finished in a continuous operation including provision of contraction, expansion, construction and longitudinal joints, joint filler, separation membrane, sealant primer, joint sealant, debonding strip, admixtures (if required) as approved, curing compound, finishing to lines and grades complete as per drawing and as per clause 602, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.PCC M-20	1	cum	5550.00	5550.00
7	Providing and fixing precast cement concrete M-20 grade (Using mechanical Concrete Mixer) kerb stone top and bottom width 115 and 165 mm respectively, 250 mm high on 150 mm thick PCC M-10 grade foundation as per design, including fixing at site as per clause 408 of MoRT&H Specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion	1	RM	312.50	312.50
				Total	11089.35

Work amount upto Rs. ^{4.99}~~5.00~~ lacs

Terms and Condition :-

- सभी प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेंगे।
- कार्य स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
- गी.सारणी में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।
- कार्य स्थल पर कार्य सम्बंधित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।
- कण नुटी की अवस्था में सम्बन्धित रेट मान्य होगी।
- कार्य करने से पूर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कराने होंगे।
- दोष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी।
- दरें 4 माह तक मान्य रहेगी
- प्रशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
- निष्पादन सुरक्षा राशि 10 प्रतिशत मय अनुबन्ध के जमा कराना होगा।


EXECUTIVE ENGINEER
NAGAR NIGAM, JODHPUR.

We hereby agree to do the above work @ _____ Above/below the "G" Schedule.

(Signature of Contractor)

NAGAR NIGAM JODHPUR SOUTH

GSCHEDULE

IIT No. date

Fast Date of Sale :-

Date of Receipt :-

Copy issued to M/s

Sr No.

Earnest Money : Rs.

CR No. Dated.

Name of Work- Enamel paint & Cement paint work on Road Divider Blocks at various Places in Ward No. 1 to 40 of NNJS (A.R.C.)

No.	Item	Qty.	Unit	RUIDP SOR 2022	
				Rate	Amount
1	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade Two or more coats on new work	1.00	sqm	97.50	97.50
	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade : 33.67.1 Old work (one or more coats applied @ 2.20 kg/10 sqm) over priming coat of primer applied @ 0.80 liters/10 sqm complete including cost of Priming coat.	1.00	Sqm	80.60	80.60
				Total	178.10

Work amount upto Rs. ^{4.99}~~5.00~~ lacs

Terms and Condition :-

1. प्रकृत प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेंगे।

2. स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।

3. श्रमिकों में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।

4. स्थल पर कार्य सम्बन्धित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।

5. श्रमिकों की अवस्था में सम्बन्धित रेट मान्य होगी।

6. श्रमिकों को करने से पूर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कराने होंगे।

7. निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी।

8. 4 माह तक मान्य रहेगी

9. निविदा स्वीकार नहीं होगी।

10. पादन सुरक्षा राशि 10 प्रतिशत मय अनुबन्ध के जमा कराना होगा।

EXECUTIVE ENGINEER
NAGAR NIGAM, JODHPUR.

I hereby agree to do the above work @ _____ Above/below the "G" Schedule.

(Signature of Contractor)

NAGAR NIGAM JODHPUR SOUTH

GSCHEDULE

No. date

Sr No.

Date of Sale :-

Earnest Money : Rs.

of Receipt :-

CR No. Dated.

issued to M/s

**of Work- Enamel paint & Cement paint work on Road Divider Blocks at
ous Places in Ward No. 41 to 80 of NNJS (A.R.C.)**

Item	Qty.	Unit	RUIDP SOR 2022	
			Rate	Amount
Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade Two or more coats on new work	1.00	sqm	97.50	97.50
Finishing walls with water proofing cement paint of required shade : 33.67.1 Old work (one or more coats applied @ 2.20 kg/10 sqm) over priming coat of primer applied @ 0.80 litrs/10 sqm complete including cost of Priming coat.	1.00	Sqm	80.60	80.60
			Total	178.10



Work amount upto Rs. ^{4.99}5.00 lacs

Terms and Condition :-

प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेंगे।

स्थल पर श्रमिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।

कार्गो में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।

स्थल पर कार्य सम्बंधित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।

त्रुटी की अवस्था में सम्बन्धित रेट मान्य होगी।

कार्य करने से पूर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कराने होंगे।

निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी।

4 माह तक मान्य रहेगी

वर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

आपादन सुरक्षा राशि 10 प्रतिशत मय अनुबन्ध के जमा कराना होगा।



EXECUTIVE ENGINEER
NAGAR NIGAM, JODHPUR.

I/We hereby agree to do the above work @ _____ Above/below the "G" Schedule.

(Signature of Contractor)